



# झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

---

24 फाल्गुन, 1939 (श०)

संख्या- 252 राँची, गुरुवार,

15 मार्च, 2018 (ई०)

---

राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड

.....  
आदेश

10 मार्च, 2018

संख्या-03नि0-40/2016 रा0नि0आ0 337 -- यतः राज्य निर्वाचन आयोग को समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट जिला से त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन, 2010 के लिए जो स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से हुआ है, स्तम्भ (4) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 की धारा 68 क एवं 65 क 'क' सहपठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तदयधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में यथा दर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहा है ;

और यतः उक्त अभ्यर्थी/अभ्यर्थियों ने सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है या उनके द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों पर (यदि कोई हो) विचार करने के पश्चात् राज्य निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त या न्यायोचित्य कारण नहीं है ;

अतः इस संबंध में उपायुक्त, सरायकेला-खरसावाँ के प्रतिवेदन/अनुपूरक प्रतिवेदन एवं अभ्यर्थियों से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षोपरान्त अब राज्य निर्वाचन आयोग, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क, सहपठित झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 की धारा 68 क एवं 65 क 'क' के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को त्रिस्तरीय पंचायत निकायों/स्थानीय नगर निकायों के किसी भी पद या स्थान के लिए चुने जाने और निर्वाचित होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित किया जाता है।

क्रमांक	जिला	निर्वाचन क्षेत्र	नाम एवं पता	कारण
1	2	3	4	5
1	सरायकेला- खरसावाँ	XXIII सरायकेला- खरसावाँ-02	रिझु माझियान, ग्राम-जामदोहा, पंचायत-बांदु, प्रखण्ड-ईचागढ़, जिला-सरायकेला-खरसावाँ	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
2		XXIII सरायकेला- खरसावाँ-03	जय प्रकाश साव, ग्राम-तिरूलडीह, टोला-सिरकाडीह, पंचायत-तिरूलडीह, प्रखण्ड-कुकड़ू, जिला-सरायकेला- खरसावाँ	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
3		XXIII सरायकेला- खरसावाँ-03	शिलाजीत महतो, ग्राम-लेटेमदा, पंचायत-लेटेमदा, प्रखण्ड-कुकड़ू, जिला-सरायकेला-खरसावाँ	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
4		XXIII सरायकेला- खरसावाँ-04	चंचला महतो, ग्राम-घुटियाडीह, पंचायत-गौरडीह, प्रखण्ड-नीमडीह, जिला-सरायकेला-खरसावाँ	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
5		XXIII सरायकेला- खरसावाँ-05	गुरुचरण कर्मकार, ग्राम-आसनबनी, पंचायत-आसनबनी, प्रखण्ड-चांडिल, जिला-सरायकेला-खरसावाँ	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
6		XXIII सरायकेला- खरसावाँ-05	गुरुपद महतो, ग्राम-बडडीह, कपाली, पंचायत-कपाली उ0प0, प्रखण्ड- चांडिल, जिला-सरायकेला-खरसावाँ	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।

7	XXIII सरायकेला- खरसावाँ-05	दिलीप कुमार महतो, ग्राम-आसनबनी, पंचायत-आसनबनी, प्रखण्ड-चांडिल, जिला-सरायकेला-खरसावाँ	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
8	XXIII सरायकेला- खरसावाँ-05	फिरदोश अहमद दुर्गानी, ग्राम-कपाली गौसनगर, पंचायत- कपाली उ0प0, प्रखण्ड-चांडिल, जिला-सरायकेला-खरसावाँ	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
9	XXIII सरायकेला- खरसावाँ-05	मोखतार अहसन, ग्राम-कपाली, पंचायत-कपाली, प्रखण्ड-चांडिल, जिला-सरायकेला-खरसावाँ	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
10	XXIII सरायकेला- खरसावाँ-05	मोहम्मद शहजाद, ग्राम-कपाली ईस्लाम नगर, पंचायत-कपाली उ0पू0-19, प्रखण्ड-चांडिल, जिला-सरायकेला-खरसावाँ	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
11	XXIII सरायकेला- खरसावाँ-05	सफदर हयात, ग्राम-कपाली द0 गौसनगर, पंचायत-कपाली द0प0, प्रखण्ड-चांडिल, जिला-सरायकेला-खरसावाँ	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
12	XXIII सरायकेला- खरसावाँ-05	मनोरंजन महतो, ग्राम-कपाली बंधुगौड़ा, प्रखण्ड चांडिल, जिला-सरायकेला-खरसावाँ	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
13	XXIII सरायकेला- खरसावाँ-06	घासीराम लायक, ग्राम-करनीडीह (भुँईयाडीह), पंचायत-चिलगु, प्रखण्ड-चांडिल, जिला-सरायकेला-खरसावाँ	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
14	XXIII सरायकेला- खरसावाँ-06	धीरेन्द्र लायेक, ग्राम-हिरमिली, पंचायत-रूचाप, प्रखण्ड-चांडिल, जिला-सरायकेला-खरसावाँ	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
15	XXIII सरायकेला- खरसावाँ-06	बसंत कालिन्दी, ग्राम-कदमडीह, पंचायत-चांडिल, प्रखण्ड-चांडिल, जिला-सरायकेला-खरसावाँ	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।

## झारखण्ड गजट (असाधारण) गुरुवार, 15 मार्च, 2018

16	XXIII सरायकेला- खरसावाँ-06	राजेश राजवार, ग्राम-हारुडीह, पंचायत-भादुडीह, प्रखण्ड-चांडिल, जिला-सरायकेला-खरसावाँ	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
17	XXIII सरायकेला- खरसावाँ-06	सरदीप कुमार नायक, ग्राम-गांगुडीह, पंचायत-रूचाप, प्रखण्ड-चांडिल, जिला-सरायकेला-खरसावाँ	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
18	XXIII सरायकेला- खरसावाँ-07	डोमन चन्द्र वास्के, ग्राम-सिंगाती, पंचायत-चावलीबासा, प्रखण्ड-चांडिल, जिला-सरायकेला-खरसावाँ	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
19	XXIII सरायकेला- खरसावाँ-08	माला सोय, ग्राम-कुचाई, पंचायत-मारांगहातु, प्रखण्ड-कुचाई, जिला-सरायकेला-खरसावाँ	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
20	XXIII सरायकेला- खरसावाँ-09	सुरेन्द्र हांसदा, ग्राम-कोतवालसाई, पंचायत-जोरडीहा, प्रखण्ड-खरसावाँ, जिला-सरायकेला-खरसावाँ	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
21	XXIII सरायकेला- खरसावाँ-10	मंजू कुमारी हेम्ब्रम, ग्राम-हाडीसाई, पंचायत-सिमला, प्रखण्ड-खरसावाँ, जिला-सरायकेला-खरसावाँ	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
22	XXIII सरायकेला- खरसावाँ-12	शीला देवी, ग्राम-सरमाली, पंचायत-कमलपुर, प्रखण्ड-सरायकेला, जिला-सरायकेला-खरसावाँ	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
23	XXIII सरायकेला- खरसावाँ-12	संगीता देवी, ग्राम-सीनी, पंचायत-सीनी, प्रखण्ड-सरायकेला, जिला-सरायकेला-खरसावाँ	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
24	XXIII सरायकेला- खरसावाँ-12	मित्तू पाईन दे, ग्राम-सीनी, पं0-सीनी, जिला-सरायकेला-खरसावाँ	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
25	XXIII सरायकेला- खरसावाँ-13	प्रमोद कुमार सिंह, ग्राम-काण्ड्रा, पंचायत-काण्ड्रा, प्रखण्ड-गम्हरिया, जिला-सरायकेला-खरसावाँ	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।

26	XXIII सरायकेला- खरसावाँ-15	राजाराम मार्ली, ग्राम-जिलिंगगोड़ा, पंचायत-डुडरा, प्रखण्ड-गम्हरिया, जिला-सरायकेला-खरसावाँ	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
27	XXIII सरायकेला- खरसावाँ-16	सालुका जारिका, ग्राम-आराहासा, पंचायत-पोटका, प्रखण्ड-राजनगर, जिला-सरायकेला-खरसावाँ	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
28	XXIII सरायकेला- खरसावाँ-18	कार्तिक ज्योतिषी, ग्राम-बड़ाखिरी, पंचायत-टींटीडीह, प्रखण्ड-राजनगर, जिला-सरायकेला-खरसावाँ	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
29	XXIII सरायकेला- खरसावाँ-18	महादेव महतो, ग्राम-गेंगेरुली, पंचायत-गेंगेरुली, प्रखण्ड-राजनगर, जिला-सरायकेला-खरसावाँ	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।

राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेश से,

**ह० /-(अस्पष्ट),**

सचिव,

राज्य निर्वाचन आयोग,

झारखण्ड, राँची।

-----